



## महानिदेशक शिविर कार्यालय हिंदी पखवाड़ा रिपोर्ट - 2019

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक शिविर कार्यालय, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक 13.09.2019 से 30.9.2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ दिनांक 13.9.2019 को हुआ । उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री एम. चंद्र दास, उप महानिदेशक, महानिदेशक शिविर कार्यालय, नई दिल्ली ने की। सर्वप्रथम श्री एस.एन. भगत, निदेशक एवं राजभाषा अधिकारी ने हिन्दी दिवस के अवसर पर अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए सभी को हार्दिक बधाई दी। अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय खान मंत्री के संदेश वाचन के उपरांत उन्होंने राजभाषा का महत्व बताते हुये माननीय खान मंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिये आग्रह किया । उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा सरल एवं सरस है । कार्यालय के दैनिक कार्यों में इसे बढ़ाने के लिये हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए । सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने हिन्दी पखवाड़े की सफलता की कामना करते हुये अपना संबोधन पूरा किया । इसके उपरांत राजभाषा अधिकारी ने इस दिवस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुये हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की।

इसके उपरांत राजभाषा अधिकारी के द्वारा पावर प्वाइंट के माध्यम से सभा को अवगत कराया कि हमारा कार्यालय 'क' क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र के लिये पत्राचार का लक्ष्य 100% रखा गया है ।

इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, बस एक मिनट प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता और हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इन सभी प्रतियोगिताओं में सभी ने बड़े उत्साह से और बढ़-चढ़ कर भाग लिया ।

हिन्दी पखवाड़े के अंत में समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया । राजभाषा अधिकारी ने सभी का स्वागत करते हुए सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी टिप्पण के लिये प्रोत्साहन योजना के विजेताओं के नाम की उद्घोषणा की और उन्हें इसी प्रकार पूरा वर्ष हिन्दी में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया । हिंदी के प्रति सभी के रुझान को बढ़ावा देने के लिये सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक-एक पुस्तक प्रदान की गई । इसके उपरांत पखवाड़े में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया । अंत में, राजभाषा अधिकारी ने हिंदी पखवाड़े में सहभागी होकर इसे सफल बनाने के लिये सभी को धन्यवाद दिया ।

## हिंदी पखवाड़े की कुछ झलकियां

